

HT MEDIA LIMITED

Regd. Office: Hindustan Times House 18-20, Kasturba Gandhi Marg New Delhi - 110001 Tel.: 66561234 Fax: 66561270 www.hindustantimes.com E-mail: corporatedept@hindustantimes.com CIN L22121DL2002PLC117874

04th September, 2024

**BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street **Mumbai - 400 001** 

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 532662

**Trading Symbol: HTMEDIA** 

Newspaper Advertisement- Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR')

Re: 22<sup>nd</sup> (Twenty second) Annual General Meeting ('AGM') of the Company via video conferencing/ other audio-visual means('VC/OAVM')

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of relevant page of "Mint" (English) and "Hindustan" (Hindi) newspapers published on 04<sup>th</sup> September, 2024, giving details, inter-alia, about the:

- Completion of dispatch of Annual Report for the Financial Year 2023-24 and Notice convening the 22<sup>nd</sup> AGM of the Company to be held on Friday, 27<sup>th</sup> September, 2024 via VC/OAVM; and
- Other relevant information as required to be given to Members in terms of Companies Act, 2013 and SEBI LODR including Circular(s) issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HT Media Limited

(Manhar Kapoor)

**Group General Counsel & Company Secretary** 

Encl: As above

Ph.: 011-66561234

# Microsoft rolled out AI PCs that can't play top games—and there's no quick fix

Chips inside the laptops are incompatible with many leading titles, resulting in bugs, glitches or games simply not working

feedback@livemint.com

he latest Windows personal computers with artificial-intelligence features have "the best specs" on "all the benchmarks," Microsoft Chief Executive Satya Nadella recently said. There is one problem: The chips inside current models are incompatible with many leading videogames.

Microsoft and its partners this spring rolled out Copilot+PCs that include functions such as creating AI-generated pictures and video.

Under the hood of the new laptops is a hardware change. Instead of the Intel

chips that have THE WALL STREET JOURNAL. powered Mic-

rosoft Windows PCs for nearly four decades, the initial Copilot+PCs to hit the market use Qualcomm chips, which in turn rely on designs from U.K.-based Arm.

Most PC games, including popular multiplayer games such as "League of Legends" and "Fortnite," are made to work with Intel's x86, a chip architecture that has been the standard for many personal computers for decades.

To make some of these programs function on the Qualcomm-Arm system, they must be run through a layer of software that translates Intel-speak into Arm-

Chip experts say the approach isn't perfect and can result in bugs,

glitches or games simply not work-

The problem is widespread. About 1,300 PC games have been independently tested to see if they work on Microsoft's new Armpowered PCs and only about half ran smoothly, said James McWhirter, an analyst with research firm Omdia. He cited an independent website recommended by Microsoft to check compatibility. Many other lesspopular games haven't been

Gamers are power users of PCs, accounting for about 15% of laptop users and tens of billions of dollars in business each year, said Henry

Chang, an analyst with Taiwan-based research firm

Digitimes.

Microsoft confirmed that some games may not play on Copilot+ PCs, including certain titles with demanding graphics requirements. It said it was "committed to making a quality gaming experience" on the PCs but for now, "players who want a high-performance native gaming experience may choose an alternate PC optimized for gaming."

Qualcomm had a similar comment, saying the type of chip powering the new AI PCs "is not currently considered a gaming platform" but that it was working with partners to improve the situation.

The companies said many games already work with Copilot+



Gamers are power users of PCs, accounting for 15% of laptop users & billions of dollars in business per year. вьоомвекс

PCs without requiring a translation layer. Speaking at an industry event in June, Qualcomm Chief Executive Cristiano Amon mentioned titles such as "Baldur's Gate 3," a fantasy role-playing game. However, Amon spent less than two minutes speaking about videogames near the end of his hourlong speech.

One frequent cause of problems is the software built into some games to prevent cheating-an essential feature added to titles such as "Fortnite" and "League of Legends." Even if the game itself can be translated to run on Arm, the anti-cheating software may be incompatible.

Qualcomm said it was working with makers of anti-cheating software to optimize their code for better compatibility, and Epic Games, the publisher of "Fortnite," said it was discussing the anticheating software issue with Qual-

Analysts said the problem can't be fixed with a quick software patch because of the fundamental structure of the current Arm-Qualcomm chips.

Videogame players who want to enjoy the AI features of Microsoft's latest PCs are likely to get satisfaction eventually, industry analysts say, but it will take some time.

Intel aims to introduce its own chips for PCs with Copilot+ AI functions in September, and computer makers expect widespread sales of those Intel-powered models next year. At that point, gamers could purchase one of the Intel devices and avoid the Qualcomm-Arm issue.

Larry Xie, a 39-year-old gamer in Shanghai, said he would wait for Intel. He said he doubted serious gamers would consider PCs powered by Arm because they mainly want a powerful graphics-process-

ing unit, "an area where Arm has no advantage at all."

Jesse Zmick, a 34-year-old cybersecurity professional in Charlottesville, Va., said he wouldn't buy an Arm-powered device because he was concerned

his favorite games such as "Dead by Daylight," a survival-horror title, and "Rising Storm 2," a shooter game.

Zmick said friends have gotten kicked out of online matches when they tried to use additional software to play on Arm computers.

In addition to games, some users have reported compatibility problems with other types of software on the new Windows PCs, and Microsoft offers a compatibility

bility issues with Arm-based chips aren't new.

In 2012, Microsoft released Windows RT, a version of the operating system designed for Arm-based processors. It never caught on because it could run only software specifically built for Arm, leaving behind decades of existing Windows software. Mic-

Apple's Mac series of computers is built on Arm chip designs and has also long struggled to win over game developers, though Macs enjoy a loyal following among

About 1,300 PC games have been tested to see if they work on the new PCs and only about half ran

smoothly

wouldn't be able to play some of expected the coming Intel chips

The performance and compati-

rosoft gave up after several years.

non-gamers. Games are just one part of the bigger struggle to control the

> insides of Windows PCs, with the upstart Qualcomm-Arm team squaring off against more experienced Intel. Digitimes's Chang said he

for Windows AI PCs to take the lion's share of the global market in the near term, in part because of their compatibility advantage.

Nonetheless, he said that based on current tests and reviews, the new AI PCs running Windows on Qualcomm-Arm chips offer longer battery life and faster processing in many cases. Qualcomm said its chips delivered "exceptional performance" and allowed PC makers to build thinner and lighter machines

©2024 DOW JONES & CO. INC.

**HT Media Limited** 

Registered Office: Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi- 110 001

Ph.: +91-11-66561355; Fax: +91-11-66561270 **E-mail:** investor@hindustantimes.com; **website:** <u>www.htmedia.in</u> Corporate Office: 5th Floor, Lotus Tower, A Block, Community Centre. New Friends Colony, New Delhi-110025 **Ph.:** +91-11-6656 1234

NOTICE OF 22<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF HT MEDIA LIMITED

n furtherance to our Notice published in the newspapers viz. Mint (All editions) and Hindustan (**Delhi NCR edition**) on August 23<sup>rd</sup> , 2024 regarding the 22<sup>rd</sup> Annual General Meeting ('AGM') of HT Media Limited ('Company') to be held Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), the Members of Company are hereby informed that the Notice convening the AGM, procedure & instructions for -voting (remote e-voting and e-voting at the AGM) and the Annual Report fo FY-24 have been sent on September 03, 2024 to those Members whose e-mail id's are registered with the Company/Depository Participants ('DP')/Registra and Transfer Agent('RTA').

Members may download the Notice of AGM, Annual Report for FY-24 and other relevant documents from the website of the Company viz https://www.htmedia.in/: stock exchanges where shares of the Company are listed viz. BSE Limited at www.bseindia.com; National Stock Exchange of India Limited viz. <a href="mailto:www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and National Securities Depository Limited (NSDL) viz. www.evoting.nsdl.com. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

The detailed procedure for attending AGM, e-voting (remote e-voting and e-voting at the AGM) etc. is set forth in the Notice of AGM, on the following lines The Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote on the business set forth in the Notice of AGM through remote e-voting and e-voting at the AGM. Procedure for e-voting and attending the AGM for Members are provided in Notice of AGM. NSDL has been engaged by the Company for providing VC/OAVM platform and e-voting facility

The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting From 9.00 a.m. (Server time) on September 23, 2024 (Monday) Up to 5.00 p.m. (Server time) on September 26, 2024 (Thursday)

The remote e-voting facility will be forthwith disabled by NSDL and Members will not be allowed to vote through remote e-voting, beyond the said date

Members of the Company whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024 only, are entitled for e-voting and to attend the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, they shall not be allowed to change i subsequently. Voting rights of the Members shall be in proportion to the holding in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-off date

Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again In case a person has become a Member of the Company after dispatch

of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024 or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and Password in the manner outlined in the

Manner of registering/updating KYC details including email address: Members holding shares in physical form and who have not registered updated their KYC details including e-mail id with the Company or RTA may register/update such details by downloading the relevant forms from the said link https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx and the details therein and attaching such documents as required in the forms to KFin Technologies Limited, Unit: HT Media Limited, Ramky Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India – 500032.

Members holding shares in dematerialized mode and have not registered updated their e-mail address, can register/update their email address with the Depository Participants where they maintain their demat accounts

The result will be declared by the Chairman or any other perso authorized by him on or before Sunday, September 29, 2024. The result along with the Scrutinizer's report will be hosted on the Company's website viz. https://www.htmedia.in/ and on NSDL's website viz www.evoting.nsdl.com. The result shall also be intimated to the Stock Exchanges viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. NSDL and Central Depository Services (India) Limited. The Company wil also display the result at its Registered Office and Corporate Office.

In case of any query regarding e-voting facility, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Download section at www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager (NSDL) at evoting@nsdl.com o can write at NSDL, 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No. C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051 or call at

Date: September 03, 2024

Manhar Kapoor (Group General Counsel & Company Secretary)

### **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

**PUBLIC NOTICE** 

Sealed EOI is invited for "Empanelment of Private Testing Laboratories in DDA" from laboratories of repute whose registered office as well as lab is situated in National Capital Territory of Delhi. The detailed information can be seen at DDA website i.e. dda.gov.in.

The last date for receipt of completed performa in hard copy in the o/o of CE(HQ &QAC), DDA, B Block, ground floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023 is 13.09.2024.

re details dial Toll Free No.: 1800110332

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान भवन लालकोठी खण्ड–टर्मिनल मार्केट,जयपुर

<u>अल्पकालीन बिड आमन्त्रण सूचना संख्या 03/2024–25</u> प्रगति मैदान नई दिल्ली में प्रदर्शनी लगाने हेतु अस्थाईढांचागत / संरचनाल देनांक 19 से 22 सितम्बर 2024 कार्य राशि रू. 15.00 लाख की ऑन—लाईन बिड ई—प्रोक्यूरमे www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत बिडर्स से आमंत्रित ही जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट <u>www.agriculture</u> jasthan.gov.in/rsamb एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता

नसका UBN No AGM2425SLOB00230 है।



छाछ / लस्सी, साइट्रिक एसिड व दही कप 100, 200 व 400 GM इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा/ ई निविदा (https://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत शर्ते े महत्वपूर्ण दिनांक इत्यादि संघ की वेबसाईट www.jaipurdairy.com एवं sppp.rajasthan.gov.in/ पर भी देखी जा



ई-निविदा आमंत्रण सूचना

महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की ओर से ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–वरि०प्र० / (ई–निविदा सेल)/2024/525 दिनांक 03/09/2024 के माध्यम से उल्लेखित क्रम संख्या–01 से 08 तक के कार्य की ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। समस्त नियम व शर्तें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइटः www.greaternoidaauthority.in पर ई—निविदा लिंक एवं ई-पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त

| ı | क्र. | कार्य का नाम/वर्क सर्किल   | अनुमानित       |  |  |  |  |
|---|------|--|----------------|--|--|--|--|
|   | सं.  |  | लागत           |  |  |  |  |
|   | निम  | र्गण कार्य   |                |  |  |  |  |
|   | 1.   | ग्राम हबीवपुर में प्ले ग्राउण्ड का विकास कार्य। (वर्क सर्किल–3)  | रू० 15.19 लाख  |  |  |  |  |
|   | 2.   | ग्राम डावरा में शेष विकास कार्य (वर्क सर्किल–7)  | रू० 62.16 लाख  |  |  |  |  |
|   | 3.   | सैक्टर-3 में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण एवं विकास कार्य।<br>(वर्क सर्किल-3)                                      | रू० 169.74 लाख |  |  |  |  |
|   | विद् | विद्युतीकरण का कार्य   |                |  |  |  |  |
|   | 4.   | ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की ऑफिस बिल्डिंग के टॉवर-2 में<br>द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तल (कामशियल कोर्ट) के लिए | रू० 116.06 लाख |  |  |  |  |
| ı | 1    | एच.वी.ए.सी (लोअर साईड) का अतिरिक्त कार्य।  |                |  |  |  |  |

(वर्क सर्किल-ईएण्डएम-2) जलापर्ति एवं सीवर का कार्य नौएडा के सैक्टर—1 में 45 एम.एल.डी. सीवरेज शोधन संयंत्र 😿 7957.59 लाख का डिजाइन, सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग तथा 120 माह तक संचालन एवं अनुरक्षण का

कार्य। (वर्क सर्किल–सीवर) उद्यान विभाग ग्रेटर नौएडा पश्चिम गौर चौक के पास 60 मी0 चौड़ी सड़क पर रू० ०४.३४ लाख पेड़ों को स्थानांतरित करने का कार्य। (वर्क सर्किल-उद्यान) हिमालय पराइड के सामने पाथवे का निर्माण एवं मास्टर ग्रीन बेल्ट का सिविल कार्य के साथ दो वर्ष तक अनुरक्षण कार्य। (वर्क सर्किल-उद्यान) ग्रेटर नौएडा के सेक्टर—01 एवं 02 में गार्डन बेंच की आपूर्ति का कार्य। (वर्क सर्किल-उद्यान)

क्रम सं0—1, 2, 3, 4, 6, 7 एवं 8 पर अंकित कार्य दिनांक—05.09.2024 से 16.09.2024 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई—निविदाओं की प्री—क्वालिफिकेशन दिनांक 18.09.2024 को 11:00 बजे खोली जाएगी एवं क्रम सं0—05 पर अंकित कार्य दिनांक—05.09.2024 से 18.09.2024 को 5:00 बजे तक अपलोड़ किया जा सकता है। प्राप्त ई-निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 20.09.2024 को 11:00 बजे खोली जाएगी । वरिष्ठ प्रबंधक (ई-निविदा सेल)

Follow us on @ (f) & • / OfficialGNIDA

# Nvidia takes an added role amid AI craze: Data-center designer

feedback@livemint.com

vidia dominates the the artificial-intelligence boom. It wants to conquer almost everything else that makes those chips tick, Chief Executive Jensen

Huang is increasingly broadening his company's focus and seeking to widen its advantage over competitors by offering software, datacenter design services and networking technology in addition to its powerful silicon brains. He is trying to build Nvidia

into more than a supplier of a valuable hardware component: a one-stop shop for all the key elements in the data centers where tools like OpenAI's ChatGPT are created and deployed, or what he calls "AI factories."

Huang emphasized Nvidia's growing prowess at data-center design following an earnings report Wednesday that exceeded Wall Street forecasts.

The report came days after rival Advanced Micro Devices agreed to pay nearly \$5 billion to buy data-center design and manufacturing company ZT Systems to try to gain ground on Nvidia.

"We have the ability fairly uniquely to integrate to design an AI factory because we have all the parts," Huang said in a call with analysts. "It's not possible to come up with a new AI factory every year unless you have all the parts."

It is a strategy designed to extend the business success that has made Nyidia one of the world's most valuable companies—and to insulate it from rivals eager to eat into its AI-chip market share, estimated at more than 80%. Gobbling up more of the value in AI data centers both adds revenue and makes its offerings stickier for custom-

Nvidia is building on the effectiveness of its 17-year-old proprietary software, called CUDA , which enables programmers to use its chips.



Nvidia is building on effectiveness of its proprietary software

CUDA, which enables programmers to use its chips

More recently, Huang has been pushing resources into a deploy it." superfast networking protocol called InfiniBand, after acquiring the technology's

lysts estimate that InfiniBand is used in

most AI-training deploy-

main equipment maker, Mel-

lanox Technologies, five years

ago for nearly \$7 billion. Ana-

Nvidia is also building a business that supplies AI-optimized Ethernet, a form of networking widely used in traditional data centers. The Ethernet business is expected to generate billions of dollars in revenue within a year, Chief Financial Officer Colette Kress said Wednes-

More broadly, Nvidia sells products including central

processors and networking chips for a range of other data-center equipment that is fine-tuned to work seamlessly together. And it deployed offers software and hardware

the needs of specific industries such as healthcare and robotics.

setups catered to

"He has verticalized the company," Raul Martynek, CEO of data-center operator DataBank said of Huang's strategy. "They have a vision around what AI should be, what software and hardware components are needed to make it so users can actually

**Competition is growing** Nvidia's competitors are responding. The Advanced Micro Devices deal to buy ZT Systems is fundamentally about gaining skills in how

ters are THE WALL STREET JOURNAL. built. AMD plans to sell ZT's manufacturing operations and retain its design experts to mount a more for-

data cen-

midable challenge to Nvidia. AMD has made other acquisitions to bolster its data-center offerings in recent years, including of programmable-chip company Xilinx and data-center net working company Pensando in 2022.

Other chip suppliers, from Intel to AI-chip startups such as Cerebras Systems and SambaNova Systems

Beyond its chips, are offering services and systems the firm is playing that do a large a growing role in share of the work shaping server for customers farms where AI is who want to produced and build and operate AI tools.

> Analysts and industry executives say the trend partly reflects a customer prefer ence for plug-and-play AI computing infrastructure that helps them move quickly amid an AI boom where speed is paramount.

> Doing more of the heavy lifting may help chip-makers better compete as AI investment shifts from experienced

tech giants such as Meta Platforms and Microsoft to a wider swath of businesses with less expertise

"Enterprises typically go with the turnkey solution, said Srini Pajjuri, an analyst at investment firm Raymond James. "They don't have the resources, they don't have the technology or know-how" to cobble together the equipment themselves, he said.

Risks in the strategy

There are some risks in the strategy, Pajjuri said. As AI computing becomes more competitive and the rush to set up AI factories subsides, customers might explore alternatives to many of the proprietary technologies that Nvidia has built up around its AI chips.

"Right now, time to market is the most important thing, so they're adopting solutions from Nvidia, but as the technology matures, Nvidia might not be able to capture more of the pie," he said.

Nvidia also could confront regulatory hurdles that have sprung up for many companies in the past that have come to dominate a market and extend their influence in

The company is under scrutiny for its market practices in Europe, and its offices in France were raided this past year, although no charges have been brought against the company there.

On Wednesday, Huang described Nvidia's role as one of a coordinator and designer that could give guidance on how to set up complex AI infrastructure, but he emphasized that Nvidia isn't going to do everything.

With its next-generation Blackwell AI chips, set to ship out late this year or early next year, it is offering a design for an entire rack of computing equipment for the first timea cabinet about 2 feet wide and 6 feet high. But Nvidia itself won't make them.

"We know how to design the AI infrastructure, provide it the way that customers would like it and let the ecosystem integrate it," Huang

©2024 DOW JONES & CO. INC.

दिनांकः 03.09.2024

# स्पेम कॉल वाले ढाई लाख नंबर बंद

नियामक ट्राई ने अनचाही कॉल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.75 लाख से अधिक मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली 50 से अधिक संस्थाओं की सेवाएं बंद करते हुए उन्हें काली सूची में डाला है। ट्राई ने पिछले महीने सभी दूरसंचार

सेवा प्रदाता कंपनियों से अपंजीकृत टेली-मार्केटिंग कंपनियों के प्रमोशनल कॉल को तुरंत रोकने के कड़े निर्देश दिए थे। इसके बाद कंपनियों ने यह कदम उठाया है। उन्होंने 50 से अधिक फर्मों को काली सूची में डाला है और 2.75 लाख से अधिक एसआईपी डीआईडी/ मोबाइल नंबर/ दूरसंचार संसाधनों को बंद कर दिया है। इससे फर्जी कॉल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मार्केटिंग कंपनियों को

अब एक अक्तूबर

से लागू होगा नया

नियम

मिली थी मार्केटिंग कंपनियों के रिवलाफ

## पहली छमाही में स्पैम कॉल में वृद्धि

ट्राई ने बताया कि 2024 की पहली छमाही में स्पैम कॉल में काफी वृद्धि देखी गई है। इस साल जनवरी से लेकर जून के बीच बिना पंजीकरण वाली टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ 7.9 लाख से अधिक शिकायतें मिली थीं। नियामक ने इसे गंभीरता से लेते हुए 13 अगस्त 2024 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कड़े निर्देश दिए और अपंजीकृत कंपनियों पर तुरंत लगाम लगाने

#### 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करनी होगी

दुरसंचार नियामक ने अनचाही कॉल के मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों से कहा है कि वे इस बाबत निर्देश जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर की गई कार्रवाई पर एक अद्यतन स्थिति और 30 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ट्राई ने निर्देशों को न मानने की स्थिति में दंडात्मक उपायों की भी बात कही है। गलत श्रेणी के तहत पंजीकृत सामग्री टेम्पलेटस को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

वहीं, दूरसंचार नियामक 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने वाला है, जिसमें बिना श्वेत सूची वाली टेली-मार्केटिंग कंपनियां किसी भी तरह के युआरएल और लिंक वाले मैसेज नहीं भेज सकेंगी। पहले इसे लागू करने की समयसीमा 31 अगस्त तक थी, जिसे बढाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दिया गया है।

# महंगाईघटने से भारत को मदद मिलेगी: विश्व बैंक

**नई दिल्ली, एजें सी**।विश्व बैंक ने एक तरफ जहां भारत की जीडीपी के अनमान को बढाया है, वहीं विश्व बैंक के भारत में निदेशक ऑगस्ते तानो कोउमे ने कहा कि भारत की मजबूत वद्धि संभावनाओं के साथ-साथ घटती मुद्रास्फीति दर से अत्यधिक गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी।

विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा, भारत की वृद्धि दर 2024-25 में सात प्रतिशत रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री रैन ली ने कहा कि मानसून में सुधार, निजी खपत और बढ़ते निर्यात के दम पर जीडीपी अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित किया जा रहा है।

इस विशेष रिपोर्ट में कहा गया, चुनौतीपुर्ण बाहरी परिस्थितियों के बीच

#### कृषि क्षेत्र में सुधार से भरपाई हो जाएगी

रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी वैश्विक व्यापार क्षमता का दोहन करके वृद्धि को और बढा सकता है। आईटी, व्यावसायिक सेवाओं और औषधि जहां यह उत्कृष्ट है, उसके अलावा भारत वस्त्र, परिधान तथा जुते-चप्पल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक और हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों में निर्यात बढ़ाकर अपने निर्यात खंड में विविधता ला सकता है। कृषि क्षेत्र में सुधार से उद्योग में आई मामूली गिरावट की आंशिक भरपाई हो जाएगी।

विश्व बैंक को उम्मीद है कि भारत का मध्यम अवधि का सकारात्मक रहेगा।

शेयरबाजार 🛮

सेंसेक्स 82555-4.40 25279 +1.15

# विदेशी निवेश में 47.8 प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली। देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ४७.८ प्रतिशत बढ़कर १६.१७ अरब डॉलर रहा। सेवा, कंप्यूटर, दूरसंचार और औषधि क्षेत्रों में बेहतर पूंजी प्रवाह से एफडीआई बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इससे पिछले वित्त वर्ष 2023–24 में अप्रैल-जुन के दौरान एफडीआई प्रवाह 10.94 अरब डॉलर था।

## जीआईसी का आईपीओ बुधवार को खुलेगा

**नई दिल्ली।** सरकार जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) में 6.78 प्रतिशत हिस्सेदारी ३९५ रुपये प्रति शेयर के भाव में बेचेगी। बिक्री पेशकश (ओएफएस) के तहत 11.90 करोड़ से अधिक शेयर बेचे जाएंगे। यह पेशकश बुधवार को संस्थागत निवेशकों के लिए खुलेगी। खुदरा निवेशक गुरुवार को बोली लगा सकेंगे। सरकार के पास जीआईसी में 85.78%

# 'स्वदेशी तकनीकी से देश में हो रहा नेटवर्क विस्तार'

**नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।** केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण में बजट से जुड़े पूंजीगत व्यय को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, दूरसंचार विभाग और संचार विभाग की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों के सचिवों ने हिस्सा लिया।

इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में पहली और दूसरी तिमाही के लक्ष्यों को हासिल किया जाए जिससे बजट में की गई घोषणाओं को शतप्रतिशत पूरा किया जा सके। बैठक में संचार सचिव ने बताया कि बजट में विभाग के लिए 28835 करोड़ की व्यवस्था है। चालु वित्तीय में मंत्रालय भारत नेट कार्यक्रम, 4जी मोबाइल परियोजनाओं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, स्पेक्ट्रम और अन्य मोबाइल परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। भारत नेट परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण और दुरदराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों को सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। 4जी नेटवर्क विस्तार परियोजना के जरिए दूरदराज के साथ ही अभी तक अछूते गांवों में कनेक्विटी की सेवा में सुधार करना है। विदेशी 4जी तकनीक की मदद से 21 हजार मोबाइल (4जी) टावर संचालित हैं और बाकी हिस्सों में तेजी से काम चल रहा है।

तय लक्ष्यों को अगली तिमाही में हासिल कर लिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने भी मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। अब तक हुए कार्यों के साथ चालू वित्तीय वर्ष के कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि निजी पूंजी निवेश को बढ़ाने संबंधी उपाए भी मंत्रालय के स्तर पर किए जा रहे हैं।

#### पश्चिम मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना, गति शक्ति शाखा

दिनांकः 31.08.2024 मध्य रेल भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक 27 09.2024 को 15:30 बजे तक ई–टेन्डर आमंत्रित करते है, जो उसी दिनांक को 15:30 बजे खोली जायेगी। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बधित पूर्ण जानकारी वेबसाईट https://www. ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं उप मुख्य अभियंता गति गक्ति/पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। इस टेन्डर के लिये कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है। तथा ऐसा कोई मैन्युअल ऑफर प्राप्त होता है, तो भी वह मान्य नहीं किया जायेगा। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। जिसे टेन्डर खुलने के दिन तिक देखा जा सकता है। **निविदा सूचना** संख्याः DY.CE-GSU-BPL-OT-20-2024, दिनांकः 31.08.2024, कार्य का नाम लोकेशन सहितः पश्चिम मध्य रेल्वे के भोपाल मंडल के बीना— भोपाल खंड में सोरई — सुमेर स्टेशनों के बीच कि.मी. 896 / 28–30 पर समपार संख्या 273 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का नेर्माण। **निविदा की अनुमानित लागत रू.**: 23,85,11,906.79, **निविदा की बयाना राशि** कः: 13,42,600 / —, निविदा प्रपत्र का मूल्य कः: 0.00, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 27.09.2024 ।

उपमुख्य अभियंता(गति शक्ति), पमरे, भोपाल स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

## 🕡 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.) 462020

#### निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

एनआईटी क्र. AIIMSBHOPAL-TENDER/NIT/24-25/013 एम्स, भोपाल द्वारा पंजीकृत निर्माताओं/डीलरों/वितरकों /ठेकेदारों से निम्नलिखित सामग्री हेतु ई–निविदा आमंत्रित

|  | ई टेंडर आई डी नं.  | एम्स भोपाल मे अपेक्षित सामग्री/सेवाएँ  | अनुमानित लाग |  |  |  |
|--|--------------------|--|--------------|--|--|--|
|  |                    | एम्स भोपाल में बायोमेडिकल उपकरणों के व्यापक रखरखाव<br>हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी का चयन | 3,46,95,76   |  |  |  |
|  | तक र्द−टेंडर से सं | बंधित अधिक जानकारी के लिए दच्छक बोलीटाता   | कपया र्द-मे  |  |  |  |

www.aiimsbhopal.edu.in पर विजिट करें तथा निविदा प्रपत्र : www.aiimsbhopal.edu.in एवं CPP Portal: www.eprocure.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं । निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र/संशोधन केवल इन्हीं वेबसाइटों पर प्रकाशित किए जाएंगे ।

प्रभारी वरिष्ठ क्रय सह भंडार अधिकारी कार्यपालक निदेशक, एम्स, भोपाल के लिए एवं उनकी ओर से जारी

#### उत्तर रेलवे निविदा सूचना

पुनःनिविदा सूचना -ई-टेंडरिंग द्वारा निविदा आमंत्रण (ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली) निविदा सूचना संख्या : 32-W-CASTING-PSC-SLAB Date: 27.08.2024

कार्य का नाम व स्थान : दिल्ली मंडल में पी एस सी स्लैब की ढलाई व 12.2 मीटर तक के स्टील गार्डर्स की प्रतिस्थापन का कार्य

कार्य की अनुमानित लागत : रु. 5,02,44,475.21 धरोहर राशि : रु. 4,01,200/-

कार्य पूर्ण करने की अवधि : 18 (अठारह महीने)

निविदा जमा करने व खुलने का समय : दिनांक 20.09.2024 को 15.00 बजे तक तथ इसी दिनांक में निविदा खुलने का समय 15.00 बजे के पश्चात।

नोटः उपरोक्त निविदा प्रपत्र वेबसाइट <u>www.ireps.gov.in</u> पर उपलब्ध है जहां से विवरण निविदा व्याख्या को देख व डाजनलोड़ किया जा सकता है।

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एचटी मीडिया लिमिटेड CIN: L22121DL2002PLC117874

**पंजीकृत कार्यालय:** हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोन: +91-11-66561355, फैक्स: +91-11-66561270

ई-मेलः investor@hindustantimes.com, वेबसाइटः www.htmedia.in **निगमित कार्यालय:** 5वाँ तल, लोटस टॉवर, ए-ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110025 फोन: +91-11-6656 1234

#### एचटी मीडिया लिमिटेड की 22वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम <mark>शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को पूर्वा. 11.00 बजे (भा.मा.स.)</mark> को होने वाली **एचटी मीडिय** लिमिटेड ('कम्पनी') की 22वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के संबंध में 23 अगस्त, 2024 को समाचारपत्रों यानी मिन्ट **(सभी संस्करणों)** तथा हिन्दुस्तान **(दिल्ली एनसीआर संस्करण)** ग प्रकाशित हमारे नोटिस के अनुक्रम में, कम्पनी के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ए.जी.एम. के आयोजन के नोटिस, ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग तथा ए.जी.एम. में ई-वोटिंग) की प्रक्रिया तथा अनुदेशों और वित्तीय वर्ष-24 की वार्षिक रिपोर्ट दि. 03 सितम्बर, 2024 को उन सदस्यों को भेजी गयी है, जिनकी ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पर्टिसिपेंट्स ('डीपी')/पंजीयक और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('**आर.टी.ए.**') के पास पंजीकृत हैं।

सदस्य कम्पनी की वेबसाइट यानी <u>https://www.htmedia.in/</u>; स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी वे शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बी.एस.ई. लिमिटेड <u>www.bseindia.com;</u> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी <u>www.nseindia.com</u> तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड **('एनएसडीएल')** यानी <u>www.evoting.nsdl.com</u> की वेबसाइटों से ए.जी.एम. के नोटिस, वित्तीय वर्ष-24 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संबंधित आलेख्यों को डाउनलोड कर सकते हैं। एजीएम क स्थान कम्पनी का पंजीकत कार्यालय माना जाएगा।

ए.जी.एम. में उपस्थित होने, ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग तथा ए.जी.एम. में ई-वोटिंग) आदि की विस्तृत प्रक्रिया, ए.जी.एम. के नोटिस में निर्दिष्ट हैं, जोकि इस प्रकार हैं:

1. कम्पनी अपने सदस्यों को ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग तथा ए जी एम. में ई-वोटिंग के माध्यमों दार वोट करने की सविधा पटान कर रही है। ई-वोटिंग और सदस्यों के लिए ए जी एम. में भाग लेने हेत प्रक्रिया को ए जी एम के नोटिस में दिया गया है। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम प्लेटफार्म तथ ई-वोटिंग की सविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग की सविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी।

| 2. रिनाट र नाटिन नम पुनिया । निराद | त्रा अनाम मा बारा । अरा-म लागाः                               |
|------------------------------------|---|
| रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत           | 23 सितम्बर, 2024 (सोमवार) को                                  |
|                                    | प्रातः 9.00 बजे (सर्वर समय) से                                |
| रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति          | 26 सितम्बर, 2024 (गुरुवार) को<br>सायं 5.00 बजे (सर्वर समय) तक |

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तुरन्त एनएसडीएल द्वारा निर्योग्य कर दी जाएगी और सदस्यों को कथित तिथि व समय के बाद. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने की अनमति नहीं होगी

कम्पनी के केवल वे सदस्य ए.जी.एम. में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग करने के हकदार हैं जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी केवल शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 को कम्पनी के सदस्यों की पंजिका में या डिपाजिटरीज़ द्वारा बनाएँ गए बेनिफिशल ओनर्स की पंजिका में दर्ज हैं। जब कोई सदस्य एकबार किसी प्रस्ताव पर वोट दे देता है, तो बाद में उसे बदलने की अनुमित नहीं होगी। सदस्यों का वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होगा।

वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वे ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां पुनः अपना वोट देने की अनुमित नहीं होगी।

यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि यानी शक्तवार. 20 सितम्बर 2024 को या उससे पहले कम्पनी का सदस्य बनता है, अथवा नोटिस के प्रेषण के बाद ई-मेल पता को पंजीकृत कराता है, तो ऐसे सदस्य ए.जी.एम. के नोटिस में वर्णित किए गए तरीके द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ईमेल पता सहित के.वाई.सी. विवरणों को पंजीकृत करने/नवीकृत करने का तरीकाः जिन सदस्यों ने भौतिक रूप में शेयर रखे हुए हैं और कम्पनी या आर.टी.ए. के पास अपन

ई-मेल पता सहित के.वाई.सी. विवरणों को पंजीकत/नवीकत नहीं किया है, कथित लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx से समर्थित प्रपत्रों को डाउनलोड करके और भौतिक रूप से उसमें विवरणों के साथ विधिवत रूप से भरे अनरोध प्रपत्र भेजकर साथ में प्रपत्रों में अपेक्षित अनुसार ऐसे दस्तावेजों को संलग्न करके, केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड यूनिटः **एचटी मीडिया लिमिटेड**, रामकी सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032 के पास ऐसे विवरणों को पंजीकृत/नवीकृत कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने डिमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हुए हैं और अपना ई-मेल पता पंजीकृत/नवीकृत नहीं किया है, उस डिपॉजिटरी पर्टिसिपेंट्स के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/नवीकृत कर सकते हैं, जहाँ वे अपने डिमैट खाते रखते हैं।

अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, रविवार, 29 सितम्बर, 2024 को या उससे पहले परिणाम की घोषणा की जाएगी। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कम्पर्न की वेबसाइट यानी https://www.htmedia.in/ और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर प्रकाशित किए जाएंगे। परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई मिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. एनएसडीएल और सेन्टल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे। कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय तथा निगमित कार्यालय में भी परिणाम प्रदर्शित करेगी।

ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में, किसी भी पूछताछ के मामले में , कृपया Frequently Asked Questions (FAQs) देखें और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक (एनएसडीएल) को <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेजें अथवा एनएसडीएल, 301, तीसरा माला, नरीमन चैम्बर्स, जी ब्लॉक, प्लॉट नं. सी-32, बांद्रा कुला कॉम्पलैक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051 को लिख सकते हैं या सम्पर्क करें 022-48867000

> मनहर कपर (ग्रुप जनरल काउंसल एवं कम्पनी सेक्रेटरी)

YILIDA

## यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी-2, सैक्टर ओमेगा-1 ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्व नगर, Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांकः वाई.ई.ए./भूलेख/746/2024

## सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम चकजलालाबाद, कुरैब व तकीपुर बांगर के सैक्टर 24ए व 22ई, सैक्टर 32 व 29 के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बरान

|             |                            |     |                | क अन्तन                                  | ात जान पाल खतरा नन्बरा  | '   |  |
|-------------|----------------------------|-----|----------------|--|---|---|--|
| क्रम<br>सं. | सैक्टर/<br>ग्राम का<br>नाम |     | खसरा<br>संख्या | खसरे<br>का कुल<br>क्षेत्रफल<br>(हे. में) | खातेदार का<br>नाम व पता   | तहसील से प्राप्त<br>रिपोर्ट के आधार<br>पर काश्तकार<br>का हिस्सा | काश्तकार<br>का विक्रय<br>हेतु क्षेत्रफल<br>(हे. में) |
| 1.          | 22ई<br>चक—<br>जलालाबाद     | 73  | 104 / 1        | 0.5060                                   | विजेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि.<br>चकजलालाबाद, तहसील जेवर<br>जनपद गौतमबुद्धनगर।   | में से  | 0.3373   |
| 2.          | 22ई<br>चक–<br>जलालाबाद     | 87  | 103 / 1        | 0.4050                                   | हरवेजी पत्नी बिल्लू नि.<br>बल्लभगढ़, चन्दर पत्नी प्रकाश<br>नि. अररूआ चांदपुर वीरवती<br>पत्नी चरन व सरवती पत्नी<br>धर्मसिंह नि. मोटका हरियाणा।                                   | 1/4   | 0.1012   |
| 3.          | 22ई<br>चक—<br>जलालाबाद     | 08  | 103स<br>/ 2मि  | 0.3038                                   | फूल सिंह पुत्र अतर सिंह नि.<br>ग्राम चकजलालाबाद, तहसील<br>जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगरं।   | 1/4   | 0.0760   |
|             | 24ए<br>चक—<br>जलालाबाद     | 08  | 121 मि         | 0.4365                                   |   | 1/4   | 0.1091   |
| 4.          | 22ई<br>चक–<br>जलालाबाद     | 94  | 77             | 0.0630                                   | फूली सिंह पुत्र अंतर सिंह व<br>मुन्नी पत्नी फूली सिंह निवासी<br>ग्राम चकजलालाबाद, तहसील   | सम्पूर्ण भाग  | 0.0630   |
|             | 24ए<br>चक—<br>जलालाबाद     | 94  | 108            | 0.1900                                   | जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर।  | सम्पूर्ण भाग  | 0.1900   |
| 5.          | 24ए<br>चक—<br>जलालाबाद     | 08  | 121मि          | 0.4365                                   | ओमप्रकाश पुत्र अंतर सिंह नि.<br>ग्राम चकजलालाबाद, तहसील<br>जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर।   | 1/4   | 0.1091   |
| 6.          | 32<br>कुरैब                | 48  | 281            | 2.6560                                   | विजयपाल पुत्र हंसराज नि.<br>चूहडपुर खादर, तहसील सदर,<br>जनपद गौतमबुद्धनगर।  | में से  | 0.0924   |
| 7.          | 32<br>कुरैब                | 48  | 281            | 2.6560                                   | सतवीर पुत्र हंसराज नि. चूहडपुर<br>खादर, तहसील सदर, जनपद<br>गौतमबुद्धनगर।  | में से  | 0.0923   |
| 8.          | 29<br>कुरैब                | 02  | 400            | 3.8990                                   | प्रेमिला मिततल पत्नी विजय<br>मिततल निवासी सी–504, फर्स्ट<br>फ्लोर, सरस्वती विहार पितमपुरा,<br>नोर्थ वेस्ट दिल्ली।   | में से  | 0.1046   |
| 9.          | 29<br>कुरैब                | 429 | 403            | 0.6830                                   | श्री लक्ष्मन पुत्र भोजराज नि.<br>ई0 416 शास्त्री कालौनी ओल्ड<br>फरीदाबाद  | में से  | 0.0975   |
| 10.         | 29<br>कुरैब                | 169 | 402            | 2.7240                                   | जावेद खॉ व अनवर बेग पुत्रगण<br>जाफर व बिसमिल्ला पत्नी<br>जाफर नि. कुरैब, तहसील जेवर<br>जनपद गौतमबुद्धनगर।   | में से  | 0.2907   |
| 11.         | 29<br>कुरैब                | 169 | 402            | 2.7240                                   | हफीज खॉ पुत्र आसिम अली<br>नि. नगला हाण्डा माजरा कुरैब,<br>तहसील जेवर जनपद<br>गौतमबुद्धनगर।  | में से  | 0.1615   |
| 12.         | 29<br>कुरैब                | 169 | 402            | 2.7240                                   | हकीकत खॉ पुत्र आसिम अली<br>नि. नगला हाण्डा माजरा कुरैब,<br>तहसील जेवर जनपद<br>गौतमबुद्धनगर।   | में से  | 0.0924   |
| 13.         | 29<br>कुरैब                | 169 | 402            | 2.7240                                   | फरजाना पत्नी लाल मौहम्म्द,<br>आकिल, आदिल, शौकीन मुन्तयाज<br>पुत्रगण लाल मौहम्मद व नाजरीन<br>पुत्री लाल मौहम्मद नि. नगला<br>हाण्डा माजरा कुरैब, तहसील<br>जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर। | में से  | 0.1015   |
| 14.         | 24ए<br>तकीपुर<br>बांगर     | 54  | 34/2           | 0.5060                                   | गंभीरा पुत्र रामफल नि.<br>चकजलालाबाद, तहसील जेवर,<br>जनपद गौतमबुद्धनगर।   | में से  | 0.4217   |
| 15.         | 22ई<br>तकीपुर<br>बांगर     | 272 | 16/4           | 0.5060                                   | श्रीमती वीरवती पत्नी ओमप्रकाश<br>नि. चकजलालाबाद, तहसील<br>जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर।  | में से  | 0.4217   |
| 16.         | 22ई<br>तकीपुर<br>बांगर     | 163 | 24/2           | 0.5690                                   | मेघराज पुत्र बलवन्त नि.<br>चकजलालाबाद, तहसील जेवर,<br>जनपद गौतमबुद्धनगर।  | सम्पूर्ण भाग  | 0.5690   |
| 17.         | 22ई<br>तकीपुर<br>बांगर     | 224 | 300            | 0.6040                                   | रामकली पत्नी फूलचन्द व<br>वीरनरायन व सुभाश पुत्रगण<br>फूलचन्द नि. मौहम्मदाबाद खेडा,<br>तहसील जेवर, जनपद<br>गौतमबुद्धनगर।  | सम्पूर्ण भाग  | 0.6040   |
| 18.         | 24ए<br>तकीपुर<br>बांगर     | 155 | 14             | 0.9990                                   | महेश सिंह पुत्र हरकेश नि.<br>रौनीजा, तहसील जेवर, जनपद<br>गौतमबुद्धनगर।  | 5 / 16  | 0.3122   |
| 19.         | 24ए<br>तकीपुर<br>बांगर     | 77  | 135मि          | 0.7420                                   | उर्मिला देवी पत्नी महेश नि.<br>रौनीजा, तहसील जेवर, जनपद<br>गौतमबद्धनगर।   | में से  | 0.0843   |

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रुप में 15 दिन के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अपनी आपत्ति प्रस्तृत कर सकता है।

डिप्टी कलेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

महत्वपूर्ण सूचनाः यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफ़रोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

## घरेलू बचत कर्ज का मुख्य स्रोत रहेगी

**मुंबई, एजेंसी।** घरेलू बचत ने बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था की निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया है और आने वाले दशकों मे यह कर्ज का मुख्य स्रोत बनी रहेगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने मंगलवार को यह बात

उन्होंने कहा, महामारी में जमापूंजी खत्म होने और आवास जैसी परिसंपत्तियों में स्थानांतरण के कारण परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत 2020-21 के स्तर से लगभग आधी हो गई है।

# जीएसटी बिल प्रबंधन प्रणाली शुरू होगी

नई दिल्ली, एजेंसी जीएसटी नेटवर्क एक अक्तूबर से बिल प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगा। इसकी मदद से करदाता सही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए आपूर्तिकर्ता की तरफ से जारी रिकॉर्ड/ बिलों का मिलान कर पाएंगे। नेटवर्क ने कहा कि करदाताओं को पोर्टल के माध्यम आपूर्तिकर्ताओं के साथ बिलों में सुधार/ संशोधनों के के लिए आईएमएस नाम की नई संचार सुविधा शुरू की जा रही है।

# सोना और चांदी में हल्की गिरावट रही

**नई दिल्ली, एजें सी।** दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 50 रुपये की गिरावट के साथ 74,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

इससे पिछले कारोबारी सत्र में ९९.९ प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 74,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 250 रुपये टूटकर 85,250 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

एसजेवीएन थर्मल (प्रा.) लिमिटेड CIN:U31908BR2007PTC017646 ("मारत सरकार के अधीन एक नवरत्न कम्पनी एसजेवीएन लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी)

प्रेस नोटिस - ई-निविदा संख्या पीसीडी-67/2023

चौसा, जिला-बक्सर, बिहार, भारत में स्थित 'कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (बीटीपीपी) (2x680 मेगावाट) के कमीशनिंग सपोर्ट और व्यापक संचालन और रखस्थात अनुबंध के लिए निविदा के संबंध में बोली—पूर्व स्पष्टीकरण और शुद्धिपत्र को दिनांक 03.09.2024 को अपलोड किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट https://etender.sjvn.co.in, www.sjvn.nic.in और www.eprocure.gov.in पर जाएं। बोली जमा करने की अविम तिथि अब 03.10.2024 ्रप्रमुख (संविदा) एसटीपीएल,

पहली मंजिल, मेन ऑफिस बिल्डिंग, एसटीपीएल, बीटीपीपी, चौमा, वक्सर (बिहार)-802114 मोबाइल नं. 09832728674 ईमेल: pcdbtpp@sjvn.nic.in

### कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

-: ई-निविदा सूचना :-

दिनांक: 29.08.2024

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के मुख्य मार्गो व अन्य आयोजनो हेतु आवाश्यकतानुसार सफाई कार्य हेतु 310 बीट श्रमिक आपूर्ति कार्य का 06 माह हेतु अनुबंध करने वाले पंजीकृत संवेदको से ई—निविदा पद्धति द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रकार कार्य की अनुमानित राशि निविदा बेचे जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्ते एवं जानकारी निगम वेबसाईट <u>www.kotamc.org, http://sppp.rajasthan.gov.in,</u> http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुमानित राशि 1.68.00.000 / –रूपये

UBN No. DLB2425WSOB07131 नगर निगम, कोटा उत्तर

निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर दुरभाष सं. 0141-2742548

क्रमांक: एफ.2(4)निम/लेखा/ठेका/2024-25/9157

जलाशयों में मत्स्याखेट अनुज्ञा हेतु ई-नीलामी बोली सूचना 03 नत्स्य विभाग के अधीन राज्य में स्थित विभिन्न श्रेणी के जलाशयों में वर्ष 2024-25 से 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेत के अधिकार आवंटन हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से ईं-नीलामी बोलियां दिनांक 30.08.2024 से दिनांक 10.09.2024 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। बोली की विस्तृत सुचना एवं शर्ते

<u>www.fisheries.rajasthan.gov.in, www.dipr.rajasthan.gov.in</u> व <u>www.eproc.</u> rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं। Dipr/c/8007/2024

MUHS

Maharashtra University Of Health Sciences, Nashik Dindori Road, Mhasrul, Nashik - 422004 Phone No. 0253-2539236

Email: registrar@muhs.ac.in/civil@muhs.ac.in, Website: http://www.muhs.ac.in

#### E-tender Notice No - Civil/04/2024

Maharashtra University of Health Sciences, Nashik Invite bids in B1 Form (Percentage Rate) Construction of WBM Road (1.650Km.) in the Campus of MUHS Nashik

The detail E-Tender Notice, Tender Fee, EMD Amount and Terms & Condition are available on e-tendering portal

http://mahatenders.gov.in, Before filling the E-Tender Visit the site.

Date: - 04/09/2024

Kalyan Singh Super Specialty Cancer Institute
(An Autonomous institute of the Govt. of Uttar Pradesh) C.G City, Sultanpur Road, Lucknow- (226002)
Website: https://cancerinstitute.edu.in, Email: jdmm.sscih@gmail.com

#### **TENDER NOTICE**

On-line offers are invited through GeM Bidding/ Bidding From Manufacturer/ Direct Importers/ Authorized distributors/ Dealers/ Accredited Agents for the supply and installation of equipments for various departments of the institute such as Onco Emergency, Microbiology Department. The vendors are required to submit their offers on GeM portal only in two

bids system i.e. Technical and financial Bid as per terms and conditions of For detailed information like Name of Equipment, Date of Submission and opening

of bid etc. You may please visit the GeM portal. The list of equipment will also be available on our website- https://cancerinstitute.edu.in for reference only. The offer will be accepted On-line only on GeM portal with terms and conditions as mentioned against each bid. The Director reserves the right to accept or reject any tender in part or full without assigning any reason thereof. In case any legal dispute; the legal jurisdiction shall be court of law at Lucknow (UP), India.

Advt. No. KSSSCI/PRO-03/2024-25

Registrar

कृते एचटी मीडिया लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

**दिनांक:** 03 सितम्बर, 2024